



# दैनिक न्याय साक्षी

## अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**  
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 04 अगस्त 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 307

### महत्वपूर्ण एवं खास

#### दिल्ली पुलिस ने बंगाल

#### सीआईडी को छापे से रोका

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उसके एक दल को राष्ट्रीय राजधानी में, नकदी जब्त होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों में से एक से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे, उसमें से 49 लाख रुपये जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की एक टीम को झारखंड के विधायकों से नकदी जब्त होने के मामले में एक आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया। अधिकारी ने कहा, नकदी जब्त होने के मामले की जांच से सिलसिले में दिल्ली गए थे। इस तरह रोका जाना पूरी तरह से अवैध है।

#### देश के बाहर सूचना भेजने वाले 348 ऐप को सरकार ने प्रतिबंधित किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गयी है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और यदि ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जबकि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इस तरह के डेटा प्रसारण भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं।

#### जम्मू-कश्मीर में एसआईए ने सात ठिकानों पर छापेमारी की

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को केन्द्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के वित्त पोषण के सिलसिले में सात ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसआईए ने बारामूला, कूपवाड़ा और पुंछ जिलों के विभिन्न ठिकानों में छापेमारी की है। एसआईए का गठन केन्द्र शासित सरकार ने पिछले नवंबर में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन के लिए किया था। एसआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए 'आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए आवश्यक उपाय करने' के लिए एक नोडल एजेंसी भी है।

#### निर्माण स्थल पर टावर क्रेन लगाने के दौरान हादसे में 4 की मौत, 1 घायल

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम के सेक्टर-77 स्थित निर्माण स्थल पर बीती शाम 17वीं मंजिल पर एक टावर क्रेन फिक्स करने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना शाम करीब पांच बजे की है। सेक्टर-77 में एमआर प्लान हिल्स के एक निर्माणाधीन स्थल पर एक आवासीय परियोजना का काम चल रहा है। पांच पीडितों में से चार की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि सभी पीडित बिहार के मूल निवासी थे। मानेसर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुरेश कुमार ने कहा, दुर्घटना तब हुई, जब पीडित 17वीं मंजिल के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टावर क्रेन को ठीक कर रहे थे और वे फिक्स गए। सभी पांच 17वीं मंजिल से गिर गए, उनमें से एक 12वीं मंजिल के सुरक्षा उपकरण पर फंस गया था जो घायल हो गया है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमने पाया कि ठेकेदार द्वारा 12वीं मंजिल पर लगाए गए आवश्यक सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। पुलिस ने कहा कि पीडितों के बारे में अधिक जानकारी अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है।

## देश में कोरोना संक्रमण के 17135 नए मामले, 47 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 17,135 नए मामले सामने आए और 47 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,67,144 हो गई है। इनमें से 5,26,477 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,37,057 हो गई है। एक दिन पहले देश में 13,734 नए मामले दर्ज हुए थे। देश में तीन दिन बाद दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देशभर में 19,823 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,34,03,610 हो गई है। देश की रिकवरी रेट 98.49 प्रतिशत है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देशभर में 4,64,919 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 87.63 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों

पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में अब तक 80,50,171 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 1,48,110 लोगों की मौत हुई है। दूसरे सर्वाधिक प्रभावित राज्य केरल में सोमवार तक 67,23,468 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका था और 70,497 मरीजों की मौत हुई है। 40,10,386 मामलों और 40,106 मौतों के साथ कर्नाटक और 35,46,907 मामलों और 38,032 मौतों के साथ तमिलनाडु अगले दो सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।

सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ही नए मामले भी सबसे अधिक आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दैनिक मामलों में फिर इजाफा हुआ है और बीते दिन यहां 1,886 नए मामले सामने आए। इसी तरह तमिलनाडु में बीते दिन 1,302



नए मामले पकड़ में आए, वहीं केरल में सोमवार को 1,057 नए लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। कर्नाटक में बीते दिन 1,736 नए मामले सामने आए।

वैक्सिनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक वैक्सिन 2,04,84,30,732 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते दिन 23,49,651 खुराकें लगाई गईं। देश में 12 साल से अधिक उम्र के 1,886 नए मामले सामने आए। इसी तरह तमिलनाडु में बीते दिन 1,302

### हरिद्वार जेल में 43 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव

हरिद्वार (आरएनएस)। उत्तराखंड में कोरोना फिर पर पसर रहा है। हरिद्वार जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस की जांच के दौरान सैपल लिए गए थे। इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। कोरोना पॉजिटिव कैदी मिलने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए 2 दिन का शिविर लगाया गया था। शिविर में कैदियों के सैपल लिए गए थे। इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जिला कारागार में इस समय 1250 से ज्यादा पुरुष कैदी और 60 से अधिक महिला कैदी हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि

जिला कारागार में हेपेटाइटिस जांच का शिविर लगाया गया था। इसकी सूचना उन्हें थी, लेकिन कोरोना जांच कब हुई यह उनके संज्ञान में नहीं है। इसलिए जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि जिला कारागार में भी कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं तो तब से जिला कारागार में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। वहीं मनोज कुमार आर्य ने बताया कि अभी तक फिलहाल आधिकारिक पुष्टि के आधार पर कोई संख्या उन्हें नहीं पता है कि कितने मरीज पॉजिटिव हैं। वहीं मेला हॉस्पिटल के सीएमएस और कोविड-19 के इंचार्ज राजेश गुप्ता ने बताया कि जिला कारागार में 900 सैपल लिए गए, जिसमें 70 के करीब पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हरिद्वार के सीएमओ खगेंद्र सिंह से जब जानकारी ली गयी तो उन्होंने जिला कारागार में

43 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई। वहीं जेल में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों को लेकर भी अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 346 नए मरीज मिले हैं, जबकि 85 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1925 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में सैपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 11.91 प्रतिशत है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक जनवरी 2022 से लेकर अभी तक प्रदेश में 98,473 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से 92,760 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 94.20 प्रतिशत है। इस साल अब तक 294 मरीजों की मौत हुई है।

### मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएस पूजा सिंघल को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची (आरएनएस)। मनरेगा घोटाला और अवैध माइनिंग के जरिए मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित सीनियर आईएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। वह पिछले 11 मई से जेल में बंद हैं। कोर्ट में सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर उनकी ओर से पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष हैं। ईडी ने जो रुपये बरामद किये हैं, वह उनका नहीं है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि सिंघल ने अवैध माइनिंग के जरिए गलत तरीके से राशि अर्जित की है। कई बैंकों में उनके अकाउंट हैं। अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर कमाई गयी राशि की मनी लांड्रिंग का यह मामला बेहद



अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ ईडी ने 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खुंटी और पलामू में डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। ईडी ने बीते 6 मई को पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे। इसके बाद 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

### नेशनल हेराल्ड ऑफिस का एक हिस्सा सील, बिना परमिशन नहीं खुलेगा ताला; कांग्रेस मुख्यालय की बड़ी सुरक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना एजेंसी के अनुमति के सील किए हिस्से को नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग केस में ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। नेशनल



हेराल्ड दफ्तर के 14 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। बुधवार को एजेंसी के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर के यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया। साथ ही निर्देशित किया है कि बिना अनुमति दफ्तर के उस हिस्से को खोला नहीं जाएगा।

कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जानकारों के अनुसार, ईडी की कार्रवाई के बाद सुरक्षा ऐहतियतन कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर सड़क को सील कर दिया है। पुलिस को अदेश है कि दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता सड़क पर उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ी। ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया गांधी का घर करीब है।

### उपग्रह आधारित टॉल वसूली की तैयारी : केन्द्रीय मंत्री गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में उपग्रह आधारित वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से टॉल वसूली की प्रक्रिया शुरू किये जाने की तैयारी हो रही है और वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू कर दिये जायेंगे जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा।



केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुये कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से टॉल वसूली की सुधार की पूरी गुंजाइश है। इससे कोई व्यक्ति न तो टॉल की चोरी कर सकता है और न ही कोई बच सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक टॉल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। इसके महनेजर इस नयी प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की प्रक्रिया

जारी है। इसके बाद छह महीने के भीतर देश में यह व्यवस्था लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही जिससे न तो टॉल बनाने की जरूरत होगी और न ही कोई व्यक्ति बगैर न तो टॉल की चोरी कर सकता है और न ही कोई बच सकता है।

उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं से वाहनों में जीपीआरएस की सुविधा देने के लिए कहा गया है ताकि इससे टॉल वसूली

एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम जोरशोर से जारी है। वर्ष 2024 तक देश में ये 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू होने के बाद सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कोई वित्तीय संकट नहीं है। हर वर्ष देश में पांच लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण की क्षमता है। बैंक सड़क निर्माण के लिए धन उपलब्ध करने के लिए तैयार है।

गडकरी ने कहा कि देश में वाहनों में टॉल वसूली के लिए फास्टैग लगाने के बावजूद इससे वसूली पूरी नहीं हो पा रही है। अभी प्रतिदिन इससे 120 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पा रही है क्योंकि 97 प्रतिशत लोग इस फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं लेकिन 67 प्रतिशत ही इसके माध्यम से टॉल चुका रहे हैं। शेष लोग नकदी में दोगुना टॉल चुका रहे हैं। इसमें क्या घालमेल है समझ नहीं आ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में अभी 26 ग्रीन

### उपराष्ट्रपति ने दिखाई हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी, राहुल गांधी ने भी बदली डीपी

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वैकेया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी सरोगे नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्री हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। आज आप देख सकते हैं सभी एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग-अलग दल के नेता इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, आने वाले पीढ़ियों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट



रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत तथा ताकतवर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक एक तरफ आजादी के 75 साल को उत्सव के रूप में मना रहा है तो दूसरी ओर वक्कर का आह्वान है कि आगामी 25

साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पर हर नागरिक खड़ा उतरे ये प्रयास हम सबका है। वहीं, मीनाक्षी लेखी ने कहा, हर घर तिरंगा फैले और सब लोग अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर हर घर तिरंगा फहराने का और भारत के भविष्य को लहराने का

काम करो। राहुल गांधी ने भी बदली डीपी वहीं, सरकार के इस अभियान को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने भी अपनी डीपी तिरंगे से बदल ली है। उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी नजर आ रहे हैं। राहुल ने फोटो टूट कर देह लेखा, देश की शान है, हमारा तिरंगा; हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी तरफ से भी पत्र और ईमेल गए थे। विपक्ष के लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए था क्योंकि तिरंगा यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव देश को ध्यान में रखकर हर घर तिरंगा फहराने का और भारत के भविष्य को लहराने का

### राहुल, प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने हाथ में तिरंगा लिए नेहरू की तस्वीर वाली डीपी लगाई

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत पार्टी के कई नेताओं ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर वाली डीपी (डिप्लोमैटिक पिक्चर) के तौर पर लगाईं। मुख्य विपक्षी दल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पर आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, क्या वे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में 'तिरंगा' लगाने का आह्वान किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा लिए नेहरू की तस्वीर वाली डीपी लगाने के बाद ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी तस्वीर की डीपी लगाई और कहा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी डीपी के तौर पर यही तस्वीर लगाई गई है। प्रेस ने कहा, तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रागों में है।